



Centre of Excellence



GOVT. COLLEGE SANJAULI SHIMLA – 171006, H.P. (India)
Co-Educational Institution
Affiliated to Himachal Pradesh University Shimla – 5

Website: www.gcsanjauli.edu.in
E-Mail: principalsanjauli@gmail.com

Supporting Document for 3.2.2.1

3.2.2.1: Number of Workshops/Seminars/Conferences including on Research Methodology, Intellectual Property Rights (IPR) and entrepreneurship conducted during the last five years

TABLE OF CONTENTS

Sr. No	Title of workshops/seminars/conferences	Page no	Session
1.	Going Glocal: Generating Concern for the State of Himachal Pradesh	3-4	2021-22
2.	Workshop on Health, Hygiene and Women's Skin Health	5	
3.	One Week Workshop on Glorious Science Week Celebration	6-19	
4.	Webinar on Research Methodology, Filing of Patent, About Copyrights and Scopes After Graduation	20	
5.	Workshop on "Capacity Building Programme on Soft Skills" One Week Workshop	21	
6.	Workshop; Provisions of Vishakha Guidelines	22	
7.	Workshop on Harassment of Women at Workplace	22	
8.	National Seminar on Crime Against Women: The Devi Violated	23-24	
9.	National Seminar on " Sustainable Development: Issues & Challenges"	25	
10.	One Day Workshop on " Intellectual Property Rights: The Way Ahead to Protect Ideas"	26-28	
11.	"Investors' Awareness Programme"	28	
12.	"TDS and GST"	28	2020-21
13.	National Science Day -2020	29	

14.	Workshop on Scope of Botany Beyond Phylogeny Characterization to Application Research	30		
15.	Workshop on Overcoming Pandemic Blues in Higher Education Through Information Technology: A Road Map	30		
16.	Workshop on e- content Creation and Management	31		
17.	Faculty Development Programme on Biopython	31		
18.	Faculty Development Programme on Drupal	31		
19.	Faculty Development Programme on Avogadro	31		
20.	Faculty Development Programme on R Programming	31		
21.	Faculty Development Programme on Libre Office Suite	31		
22.	Workshop on Self-employment Through Govt Schemes	32		
23.	<u>National Education Policy (NEP 2020)</u>	32-33		
24.	Workshop on Science and Scientific Temperament	34-35		
25.	Workshop on Stress Management	35		
26.	Operating Systems-Concept and Implementation	36		
27.	SVEEP	37		
28.	Workshop cum National Science Day -2019	37		
29.	Workshop on Future Prospects in IT Industry by Career & Counselling Cell	38		
30.	Workshop on Pioneering, Knot Making and Lashing	39		
31.	Workshop on Electronic Waste	40		
32.	Workshop on “Innovative Ideas for Water Conservation/Waste Management and Cleanliness”.	40-41		
33.	Workshop on 150 th Year Celebration of Mahatma Gandhi	42		
34.	Workshop on Drug Abuse	42		2018-19
35.	Workshop on Disaster Risk Reduction	43		
36.	One Day Workshop on Experimental Physics in Collaboration with Department of Physics , JUIT Waknaghat	44		
37.	Workshop on Experimental data Acquisition Using Computer System	44		
38.	Workshop on Astronomy	40		
39.	Workshop on Rain Water Harvesting	45		
40.	Workshop on Biotechnological Techniques	46		
41.	Workshop on Drug Awareness	46		
42.	Workshop on Cyber Crime	47		
43.	Wild Life Week	47	2017-18	
44.	Awareness Programme by National Commission for Women	48		
45.	HP State Council for Science, Technology and Environment Govt. of HP Organized a Popular Lecture on Climate Change and its Impact on the Himalayan Region	48		
46.	Workshop on Proficiency in English Grammar	49		

Workshop on Going Glocal: Generating Concern for the State of Himachal Pradesh



One Week Faculty Development Programme

on “Going Glocal: Generating Concern for the State of Himachal Pradesh”

Overview

The Faculty Development Programme aims at bringing the participants vis-a-vis with the fast emerging concept of 'Glocalisation' while upgrading the knowledge and enhancing the intellectual and academic environment in the institution. Glocalisation is a combination of the words "globalisation and "localisation." Glocalisation primarily focuses on expanding the local boundaries as well as making some local ideas, practices, and institutions global. Indian brands like AMUL, HALDIRAM, PARLE, TAJ MAHAL TEA and Pharma Giants like Cipla and Himalaya are shining examples of globalizing the local tastes and practices while International food chains such as Subway, Mc Donalds, KFC etc. glocalise their food as per Indian tastes and sensibilities. Glocalisation has touched every aspect of life in form of Hybrid culture, Glocalised education or economic development with resurgence of 'Make in India' initiative. Social movements such as the feminist movements and ecological movements or new production techniques and marketing strategies which originate in local context but over a period of time these practices spread far beyond that locality into a larger spatial and historical arena.

Lets delve deeper into the practices and strategies through which the global knowledge can be localized in Himachal Pradesh in Pharma Industry, hydroelectricity production, Apple production, education, literature, politics and economic development keeping in sync with age old concept of vasudhaiva kutumbakamb.

Main Theme

Going Glocal: Generating Concern for the State of Himachal Pradesh

Sub Themes of FDP

- Development of Hybrid Culture
- Resurgence of Cultural Nationalism
- Commercialisation of Indigenous Knowledge
- Aaadapting External and Local Pedagogical Knowledge into Teachers' Classroom Practices
- Glocalisation: A Step Forward in Women Liberation
- Translation Studies

Programme Schedule

1st Day Monday: 30 May 2022

Ist Session: Professor D D Sharma, Vice Chancellor, Sardar Vallabh Patel University, Mandi, Himachal Pradesh.

IInd Session: Dr.T C Kaul, Celebrated Music Personality of Himachal Pradesh, Classical and Semi Classical Singer

Topic: Himachal Pradesh Ki Saanskritik Dharohar- Lokgeet (Kal aur Aaj)

2nd Day Tuesday: 31 May 2022

Ist Session: Mr. Vishal Sharma, Visiting Researcher at Centre for Trust, Peace Social Relations, Conventry University, England

Topic: The Socio-political Impact of Sidelining Pahari (Himachali) language Dialect Chain in Himachal Pradesh.

IInd Session: Dr Tulsi Raman, Poet and Writer.

Topic: Himachal ki Kala Sanskriti

3rd Day Wednesday: 1st June 2022

Ist Session: Dr. T. R. Sharma, Retd. Professor, Economics

Topic: Transformation of Agriculture in Himachal Pradesh

IInd Session: Dr. R Umamaheshwari, Former Fellow, Nates Institute for

Advanced Study, France and IAS Shimla

Topic: Women's World and Pandemic Politics: Observations From Rural Himachal

4th Day Friday: 3rd June 2022

Ist Session: Professor Harish K. Thakur, Department of Political Science, Himachal Pradesh University

Topic: An Enquiry into changing Dimensions of State Politics in HP

IInd Session: Dr. Aniket Alam, Human Sciences Research Group, International Institute of Information Technology, Hyderabad.

Topic: The Exception that is Himachal: Notes on Studying Himachal History.

5th Day Saturday: 4th June 2022

Ms. Manshi Asher, Activist, Researcher and Co-Founder of Himdhara Collective.

Topic: Politics of Environment and Development in Himachal.

Patron

Dr. C B Mehta

Principal, Centre of Excellence, Govt. College, Sanjauli, Shimla-6

Co-coordinator, IQA

Dr. Rajesh Dhorta

Organizing Committee

Namita Khagta, Convener

Pooja Dulta, Member

Kirti Singha, Member

Ajay Kaith, Member

Devender Sharma, Member

Image: Brochure of the Seminar



Image: Organizing team along with Principal of the college



Image: Glimpse of the seminar

Workshop on Health, Hygiene and Women's Skin Health

Health, Hygiene & Women's Skin Health: Myth Busters

A talk was organized by the *Women Cell* of the college for the female students of the college on 25 November, 2022. An external resource person, Dr Neha Sud, was invited to deliver a lecture on the topic "*Health, Hygiene and Women's Skin Health: Myth Busters*".



GLORIOUS SCIENCE WEEK – REPORT

(*Vigyan Sarvatra Pujiyate*)

Centre of Excellence Government Degree College, Sanjauli, Shimla-06

(22nd to 28th February – 2022)

A week long **Glorious Science Week –*Vigyan Sarvatr Pujiyate*** began on 22nd February 2022 at **Centre of Excellence Government Degree College, Sanjauli , Shimla** in collaboration with **Himachal Pradesh Council for Science Technology and Environment (HIMCOSTE)** and **Vigyan Prasar Department of Science and Technology Government of India**. The inaugural session commenced with the felicitation of the Chief Guest Major General (Retd.) Atul Kaushik, Chairperson, Private Education Regulatory Commission, H.P. by Dr. Sudesh Mokhta, Member Secretary, HIMCOSTE.



The blessings of goddess Saraswati were invoked with the lamp lighting by the Chief guest along with other dignitaries and recitation of *Saraswati Vandana* by the students of the Department of Music of the college.

Mr Satpal Dhiman, Additional Director, HIMCOSTE formally welcomed the chief guest and participants from the neighboring colleges of the city .He introduced the four themes of the event namely:

1. **Annals of history of science**
2. **Milestones of modern science and technology**
3. ***Swadeshi Paramparik* inventions and innovations**
4. **Transforming India**

Mr. Dhiman enunciated that these themes would be covered during the science week through experts' talk on various relevant topics, science quiz competitions, exhibition of science models and screening of award winning documentaries and it would culminate in **YUVA VIGYAN PURASKAR CELEBRATIONS** on National Science Day on 28th February 2022.




The Chief Guest, Major General Atul Kaushik S&M, VSM (Retd.), Chairman, Himachal Pradesh Private Educational Institutions Regulatory Commission, said in his address that the event would bring to the fore the stories of people in science who made great achievements in the field of science technology.

He laid emphasis on the achievements of various scientists like Dr. C.V Raman, Arya Bhatt, Dr. Abdul Kalam, who have made commendable contributions to science and society. The inaugural session came to

an end with the address by Dr. Chander Bhan Mehta, Principal, Centre of Excellence Government Degree College, Sanjauli laying stress on promotion of such activities to inculcate scientific temperament in the younger generation. The post lunch session was a visual treat as its focus was on bringing forth the scientific innovations and science as a means of bringing about social and economic development through screening of documentaries such as ‘**Mega Science Projects :India’s Contribution**’, ‘**Atal Tunnel Rohtang : An Engineering Marvel**’ and ‘**Vigyan Veer**’. The focus of the session was to celebrate achievements of science and technology over the last 75 years through this programme that would inspire the youth.

The first session of the second day on 23rd February 2022 commenced at 11 am with Dr Sanjay, Director, IHBT Palampur, as the Resource Person. His talk was entitled ‘**CSIR’s Role in Socio-Economic Development: Annals of History of Science**’. He gave an insider’s point-of-view vis-à-vis the emergence of CSIR and its role in taking India on to the path of science and technology. He shared that in the pre-independence era itself, a need was felt for an official Pan-India body espousing the cause of scientific and industrial research. Consequently, in 1940, the *Board of Scientific and Industrial Research* was established, initially for a period of two years. Mr Mudaliar graced this board as its maiden Chairperson. The Resource Person also threw light on the role of Dr Bhatnagar, whose contribution to the field of scientific and industrial research earned him the title of ‘*Father of National Laboratories*’. With the efforts of these luminaries and very especially that of Mr Mudaliar, CSIR came into existence in 1942, five years before India earned its sovereignty from the British Raj. The CSIR established five labs during this period. This number has exponentially risen to 37 in the present times and IHBT Palampur is one of them.



The Resource Person for the session introduced to the audience the sphere of CSIR’s work, which includes diverse sectors such as leather industry, minerals, agro-nutrition, biotechnology, healthcare, aerospace, civil infrastructure and engineering. He delved into the significant contributions of CSIR over the years. For instance, CSIR’s role in the promotion of technology led innovations, its role in ‘Green Revolution’ and its

efforts in helping Himachal emerge as the biggest producer of Marigold essential oil. He also talked about CSIR's farmer centric initiatives, CSIR Aroma Mission, CSIR Pearl Culture, CSIR makeshift hospitals and CSIR's initiatives for the mitigation of transmission of SARS COVID virus. He also put forth the contribution of women in the field of science and technology and quoted some names like Kamala Sohonie and Janaki Ammal among others. He ended his insightful talk by exhorting and motivating the students to work with sincerity to reach their goal. Towards the end of the first session, the Head of the institution, Principal Dr C B Mehta too addressed the participants which comprised both students and teachers from several institutions across the state. He acquainted the students with different programs such as the winter schools and the summer schools, exclusively being run for promoting science as a subject among the students.

The second session of the second day was helmed by Dr S S Randhawa, Principal Scientific Officer, HIMCOSTE, who was also the Resource person for the session. His discourse was entitled '**Advancements in Space Technology & its Application Over Mountains**'. During the course of this brilliant presentation, he talked about space technology and its applications such as Remote Sensing. He explained the types of platforms used for remote sensing and its application in satellites.






In the context of Himachal Pradesh, he portrayed the hazard vulnerability of the fragile hill state. These hazards include geological, atmospheric, hydrological, fire and other accidents such as earthquakes and landslides. The session ended with a formal vote-of-thanks and the august gathering dispersed for lunch.

The theme for the 3rd day on 24th February 2022, of the glorious science week was Milestone of Modern Science and Technology. The session commenced at 11 am with the felicitations of the eminent Resource Persons Dr.Mahavir Singh Khachi (Commonwealth Fellow), Professor Department of Physics, HPU, Shimla and Dr S.S Kanwar, Professor Department of Biotechnology, HPU Shimla by Shri Sat Pal Dhiman, Additional Secretary, HIMCOSTE. The first speaker for the day was Dr. Mahavir Singh who reflected his profound knowledge on the Topic : ***‘Issues, Challenges in Nano Technology and Bright Future of Magnetic Nano World’***. The resource person threw light on the importance of nano-technology in different fields of life. He also stressed on the issues and challenges in the fields of nano-technology which are toxicity, electro-magnetic radiation, serious environmental, social and military implications clean water etc.




He also put forth his views on the bright future of soft Nanomagnetism.



He stated that in future Nanotechnology might lead to huge advances in health care, improving methods of detecting and treating diseases like cancer. He made the audience aware that nano particles are Eco friendly, Biocompatible and Non Toxic.

He elaborated on the Applications of Magnetic Nanotechnology in the field of Spintronics, Biomedical applications, Communication sector, Sensors, Water Purification and High density storage. The Resource Person enlightened the audience about the huge potential of Nanotechnology to transform the peoples' life for the better. An exalting demonstration of the topic Nanotechnology on our lives galvanized the engrossed participants.

The second speaker of the day was Dr. S. S. Kanwar, Professor, Biotechnology, HPU Shimla. He shared his views on the topic: ***'Biotechnology – Derived processes and products'***. He emphasized that Biotechnology is science for human welfare and the Egyptians were the first to make biotechnological processes like brewing beer and baking bread in the 4th millennium. He discussed in detail the importance and applications of the various fields of Biotechnology like Medical, Industrial, Environmental, Agricultural, Plant and Animal Biotechnology which has been playing a dynamic role for the benefit of the society.



He also made the audience aware that according to NASDAQ composite index, Biotechnology is the most profitable sector. He apprised the audience about the career opportunities in Biotechnology like Biomedical Engineering, Biochemist, Microbiologist, Medical Scientist, Bio-manufacturing specialist etc. He succeeded in triggering the young minds to think about the innovative ways and use their creativity to

determine which smaller questions are likely to yield results, imagine possible answers to their questions and devise ways to test those answers. He added that innovation involves a different way of looking at problems and solving them. The resource person enlightened the students that with a proper fellowship like CSIR/UGC NET etc. students can also get desirable jobs and salaries within a good private as well as government institute. Besides teaching there are broad scope in R&D sector with a good salary package and experience too. He succeeded in increasing the horizon of knowledge of the audience about Biopesticides. He laid stress on the use of Biopesticides and stated that their use reduce soil pollution and erosion. Hence, organic farming requires biopesticides for good crop production. He emphasized that biopesticides are effective in small quantity and often decompose quickly, resulting in lower exposures and largely avoiding the pollution problems caused by conventional methods. He concluded his lecture by stating that Biototechnology is panacea of human health, economy and welfare. Towards the end of the session feed back of the program was given by two Non Medical students of COE, Govt. College Sanjauli **Shrinivas** and **Pranav of B.Sc. I**. Both the students were appreciated by the organizers for showing courage to speak on the stage and interacting with the Resource Persons.


The first session of the fourth day on 25th February 2022 commenced at 11 am with Dr P. K. Ahluwalia, former Professor of Physics Himachal Pradesh University and present President IAPT (Indian Association of Physics Teachers), as the Resource Person. His talk was entitled as **75 Impactful Years of Indian Science and Technology**. He started his talk about the journey of developments in Science and Technology during the past 75 years of independent India. In 1947, our country stood with literacy rate of 12 % and average life expectancy of 32 years with per capita income of Rs. 230. He gave a deep insight of, How the Festival of democracy could be celebrated by using indelible ink to the development of Electronic Voting Machine.



The Resource Person also threw light on the contribution of Dr Homi Bhabha in making of TIFR Mumbai as he desired to build a school of Physics comparable anywhere in the world, later also established AEE Trombay now known as BARC in 1954. He also gave a brief history of using atom for peace as man and

making of modern temples (Research Reactors) at BARC as APSARA (1956), Cirus (1960) and Dhruva(1985). He also presented the contribution of former president of India know as Missile Man of India, Dr A. P. J. Abdul Kalam. The five Missiles Prithvi, Agni, Trishul, Akash, Naag created a defence shield for India, which were the materialized thoughts of his imagination. He also elaborated The Green Revolution by M.S. Swami Nathan in Agriculture sector, White Revolution by Dr. Verghese Kurien in the Dairy products. The Resource person also suggested to the audience that everyone should read the book titled as Rebooting India related to Adhar number by Nandan Nilekani, Wings of Fire by Dr. A.P.J. Abdul Kalam and the movies like Manthan and Quantum Indian. He also introduced about India's IT Giants like HCL, INFOSIS and ISRO. He concluded his talk by paying tribute to Dr. C. V. Raman the noble prize winner in Physics.

The second session started with the talk of Dr. Saurabh Chaube, IIT Mandi CATALIST – A Technology Business Incubator on **Start Up in Hills**. He presented India as Startup Nation with third largest Startup Echo system in the world. His mainly focused on the initialization process of Startup which comprise of two major factors, Innovation and Commercialization.



He promoted the future of Science and Technology in India by showing short videos of Startups like Tavasta (3-D print Houses), Dhruv Vidyut (Electric Bicycles), Spandan based on Sun Faux Technology (Medical diagnosis) and Self driving vehicle.

He also threw light on the achievement of IIT Mandi for establishing first incubated Startup – The Solar Lab (TSL) and various Startup Schemes for setting of new Startups. He ended his entrepreneurial talk with brief introduction of future Technologies as Artificial Intelligence, Block Chain and Mixed Reality – Applications.

A Quiz on Science and Technology was organized in post lunch session in which Six teams from vicinity Colleges participated. There were four rounds in which COE, GDC Sanjauli got the first position and the second position was bagged by St. Bede's College and the third position by RKMV after the rapid fire round. The day concluded with distribution of prizes to the winners of Quiz Competition.



The first session of the day on 26th February 2022, commenced at 11 a.m. with the formal welcome of the chief guest, Mr. Anil Thakur, additional PCCF wildlife, H.P. , and other dignitaries. Ms. Shweta Shiv Kumar, doctoral fellow at center for wildlife studies, Bangalore was the first guest speaker.



The title of the talk was **“People and Leopards of Himachal Pradesh”**. She started by introducing the behavior of leopards towards humans. She told that nine leopards were found against ten locations in a small region of about 60 km in Shimla. The speaker elaborated the eating habits of leopards in the agricultural landscapes. She gave insight into the attack done by leopards over a period of ten years. She also put forth her contribution in organizing workshops in the different schools for sensitization of students. In the end of her talk, she motivated the students to work on different project on leopard studies.

In the next part, Mr. Sudesh Kumar Mokta, director and member secretary, HIMCOSTE, addressed the august gathering. He motivated the school and college students to come forward and participate in different

programs organized for them. Therefore, the chief guest, Mr. Anil Thakur, PCCF wildlife H.P., addressed the audience. He appreciated both the speakers for their research oriented presentations. He admired the efforts put in by the forest department for the conservation of birds. He apprised the audience about the migratory birds especially found in month of December to February. He concluded his lecture by stating that active participation of students in such kind of events is very important to instill scientific temper in them. He also congratulated the organizer for organizing such an enlightening and wonderful event.

After the Chief Guest's address, prize distribution ceremony was held. Students from the schools of different districts of H.P. were honored by the chief guest and other dignitaries for participating in different activities/competitions held to celebrate glorious science week. It was a proud moment for the winners and their teachers who definitely carried with them great memories to be cherished forever. The categorized of the prizes were, senior rural, junior rural, senior urban and junior urban. The session ended with the formal vote of thanks by Ms. Deepshikha from HIMCOSTE.

The first session of the day 27th February 2022, commenced at 11 AM with the formal welcome of the Resource person Prof. A.D. Ahulwalia, Dr. Anil Kumar Thakur and all the other guests. The main speaker for the first session was Prof Arun Deep Ahulwalia, Retired Professor from Department of Geology, Panjab University, Chandigarh. The topic of discussion for the session was, ” **Building a Great Nation: Creating citizen scientists across our beautiful Indian Landscape in the Next 25 years**. He delivered inactive session on man earth legacy, especially encouraging student to study the geological sciences. He talked about world Heritage in both Cultural and Natural aspects and how to promote cooperation among all nation and people to contribute for the protection of these universal treasure intact for future generation. With the beautiful diagram he explained about super continent Pangea and movement of India northward around 200 million years back. He shared the rich wealth of nation is on geological resources and sites. He said government of India and UNESCO should identify Geo parks in India. He said about his inspiration was Shri Chandra Vohra, Indian geologist who climb Mount Everest in 1965. He guided students on Earth and Environment outreach: empowering humanity in which Planet Earth- Earth Science for society are inspiring for better knowledge. He further explained the evolution of earth, in which tectonic theories, plate's formation, type of features evolved, geological hazards etc was covered. In relation to hazards, Himalayas are prone to geological disturbances which affect the terrestrial ecosystem. Atlast, he suggested that India's prosperity requires show casting through India's geo-tourism potential & rich diversity.



The Second speaker was Dr. Anil Thakur, Associate Professor, RKMV, Shimla. His lecture was on topic **Plant diversity for human well being**. He told about the rich floral diversity of India in terms of Medicinal Plants. In India there are 1748 species of Medicinal Plants available, out of which 1123 is available in J&K and 643 in Himachal Pradesh.



He explained in detail about the medicinal values of different plants found in Himachal Pradesh and their commercial value. He highlighted the importance of local flora found in Himachal such as **Neem, Bana, Basuti, Longata, Tulsi, Shatavari, Alovera, Ashawgandha** etc. The session ended with vote of thanks.

The Celebration of Science day on 28th February 2022 and the closing ceremony of the week long programme commenced at 11 AM with the formal welcome of the Chief Guest, Hon'ble Education Minister, Govt. of Himachal Pradesh, Sh. Govind Singh Thakur at Gaiety Theatre, The Mall, Shimla.




The other guests were Shri Sudesh kumar Mokhta, Member Secretary HIMCOSTE, Shri Satpal Dhiman, Additional Secretary, Environment, Science and Technology and Joint Member Secretary HIMCOSTE, Shri Pankaj Lalit, Director Elementary Education, Dr. C.B. Mehta Principal, COE, Government College Sanjauli and Shri Anoop Vaid ,Ex Councillor MC .

The day was allocated to promote the theme for the science day- 2022: **Integrated Approach in Science and Technology for Sustainable Future** and tribute to Physicist Dr. C.V Raman. The celebration began with the guest lecture given by Dr. Prof. Amandeep Ahluwalia, Retd. CAS in Geology PU Chandigarh. He beautifully illustrated the Evolution of life through fossils. He also explained the different Eras and Periods. He showed beautiful pictures of footprints of Dinosaurs. The speaker fully interacted with the audience and emphasized on preservation of Geological sites. His power point presentation had extracts from newspapers, books and original photos.

The program was inaugurated by lighting the lamp by the Chief Guest and other dignitaries present. This was followed by Saraswati Vandana by the students of COE, Government College Sanjauli. The Chief Guest was formally honoured with Himachali Topi, Shawl and a memento by Shri Sudesh Mokhta.



Shri Sudesh Mokhta in his welcome speech spoke about the celebration of National Science day on February 28th to remember the Raman Effect. He also mentioned that CV Raman won the Noble Prize in the field of Physics in 1930 and this fact is being celebrated as Science Day every year. He emphasized on the aim of HIMCOSTE in inculcating the scientific temper and awareness on various scientific aspects among students. He said that under Yuva Vigyan Purskar Yojna, awards of Rs 10000 to 100000 are given to the students of 10+2 Science stream that bag top ten position in Himachal Pradesh Board of School Examinations. The activities of HIMCOSTE were presented by a power point presentation. The STIP was launched by the guests.



The Chief Guest for the occasion Shri Govind Singh Thakur spoke about the importance of Science Day and said that he was very happy to be amongst the young scientists and to honor them. He mentioned in his speech that the students were very talented and he was highly impressed by their models. He said that to develop scientific temper in students “Science Fair” and Eco clubs could play an important role. The students were given prizes which were categorized in three categories- Meritorious students, Scientific Project Report and Innovative Science Model. About 100 students were given prizes by the Chief Guest.

Webinar on Research Methodology, Filing of Patent, About copyrights and Scopes After Graduation

कामयाबी की कहानी, स्टूडेंट्स की जुबानी

WEBINAR

With Centre of Excellence Government Degree College, Sanjauli, Shimla



**FRIDAY, AUGUST 6th, 2021
12 P.M.**



Dr. Chandor Bhan Mehta
Principal, COE Govt. Degree College, Sanjauli Shimla



Dr. Rajesh Kumar
Dean-cum-HOS, Shoolini University



PROF. PK KHOSLA
FOUNDER & CHANCELLOR
SHOOLINI UNIVERSITY

Courtesy: Dr. Kirti Singha
Asst. Prof & Head, Department of Physics,
COE Govt College Sanjauli

Dr. Monika Chandel
Asst. Prof. Department of Physics
COE Govt College Sanjauli



Ankush Chauhan
Hatkoti, Teh-Jubbal, Distt- Shimla
Ph.D. Physics, Shoolini University
Patents Filed: 24
Alumnus: Rajiv Gandhi Govt. Degree College, Shimla



Ritesh Verma
Bhujjal, Teh-Rajgarh, Distt- Sirmaur
Ph.D. Physics, Shoolini University
Patents Filed: 17
Alumnus: Govt. PG Degree College, Solan





Top 300 University in Asia
QS Asian Rankings 2021



Zoom Webinar



Dr. Kirti Sing... Dr. Chandor ...

LIVE on Facebook

Dr. Rajesh Kumar (Dean-cum-HOS, Shoolini University)

Question and Answer

Open (2) Answered Dismissed

M Manish 12:12 PM

How we should start our research or how we should proceed with it?
IISC IISER and IIT's have integrated phd programs should we prefer it or should we stick with MSc only!!
May you explain me about GRE (Graduate Record Examination)!!

Answer live Type answer

M Mokshika 12:15 PM

what is the best platform to publish our research work as a student and what if the research work published by me matches other person's research !!

Do private universities provides funding for the research students ??

Answer live Type answer

Participants (58)

Panelists (10) Attendees (48)

Find a participant

- DK Dr. Kirti Singha (Asst. Prof.... (Me) 🗨️
- PJ Prateek Jamwal (Sr... (Host) 🗨️
- DR Dr Rajesh Kumar ... (Co-host) 🗨️
- AC Ankush Chauhan 🗨️
- DC Dr. Chandor Bhan Mehta (Princi... 🗨️

Invite Unmute Me Raise Hand


Chat

To: All panelists

Type message here...

Unmute
Stop Video
Participants 58
Q&A 2
Chat
Share Screen
Record
Leave

Workshop on Capacity Building Programme on Soft Skills



Workshop; Provisions of Vishakha Guidelines

A Lecture on provisions of Vishakha Guidelines by Dr Kamayani Bisht on 08/07/2022



Workshop on Harasment of Women at Workplace



National Seminar on Crime Against Women: The Devi Violated



National Seminar

CRIME AGAINST WOMEN: THE 'DEVI' VIOLATED

स्त्री-विरुद्ध अपराध: देवी अस्मिता का खंडन
(August 27 & 28, 2021)

Sponsored by
National Commission for Women, New Delhi

Organized by

Centre of Excellence
Govt. College Sanjauli, Shimla-6

In memory of
Dr. Sarita Sharda

Patron: Dr. C. B. Mehta, Principal
Senior Chair: Dr. B. S. Thakur
Coordinator: Ms. Bharti Bhagra (9418310988)
Convener: Dr. Manoj Jarat
Organizing Secretary: Mr. Rajesh Dhorta (9816057188)
Executive Team: Dr. T. R. Sharma
Dr. Maneesha Kohli
Dr. Kamna Mehindru Negi

Team of Organizers

1. Dr. Namrata Tikku (Retired Principal)
2. Dr. Kamlesh Thakur (Principal, GDC Chail-Koti)
3. Dr. Anupama Garg (Principal, RGGDC, Shimla-4)
4. Prof. Meenakshi Faith Paul (Principal, Department of Evening Studies, HP University)
5. Prof. Mridula Sharda (HPU)
6. Dr. Ravinder Chauhan (A.P., GDC Theog)

Screening & Publication

1. Dr. Gian Chand
2. Dr. Kamayani Bisht
3. Dr. Vinay Mohan Sharma
4. Ms. Namita Chauhan Khagta
5. Mr. Aditya Singh Dulta
6. Dr. Satya Narain Suehi
7. Mr. Sandesh Kumar Kalta

Brochures, Certificates, Invitation & Banners

1. Dr. Naresh Verma
2. Mr. Rameshwar S. Jhobta
3. Dr. Ajay Kaithi
4. Ms. Hemlata Sharma
5. Mr. Vikas Nathani

Conference Proceedings

1. Ms. Himansu Saxena
2. Dr. Minakshi Sharma
3. Dr. Nidhi Dharwalia
4. Dr. Kishori Lal
5. Ms. Priyanka

Media & Publicity

1. Dr. Surinder Sharma
2. Dr. Satya Narain Suehi
3. Mr. Sandesh Kumar Kalta

Registration

1. Ms. Bharti Sharma
2. Dr. Ruby Kapoor
3. Ms. Deepthi Gupta
4. Mr. Shubham Choudhary
5. Dr. Ajay Kaithi
6. Ms. Pinky

Correspondence

1. Mr. Yogesh Kumar (94184-52005)
2. Ms. Sachi Sood (98166-30313)
3. Mr. Mrityunjay Sharma (94183-71963)

Accommodation & Transport

1. Mr. Manoj Mehta (94184-55577)
2. Dr. Surinder Chauhan (94184-54474)
3. Dr. Kirti Singha (94184-70909)
4. Dr. Anjana Sharma (98171-15030)
5. Dr. Savita Thakur (94180-80799)
6. Dr. Om Prakash (70185-47746)

Finance & Collaboration

1. Dr. G. P. Kapoor
2. Ms. Shivani Kaprate
3. Dr. Purnima Thapar
4. Mr. Anur Mehta

Venue Management & Decoration

1. Ms. Anita Rathour
2. Dr. Monika Chandel
3. Ms. Rita Chandel
4. Dr. Poonma Verma
5. Dr. Poonam Sharma
6. Dr. Devender Chand
7. Mr. Mrityunjay Sharma
8. Mr. Munee Lakhpal
9. Ms. Uma Kanwar
10. Mr. Suraj Jamalta

Refreshment

1. Dr. Sandhya Sharma
2. Ms. Sachi Sood
3. Ms. Kamlesh Kumari
4. Ms. Prateeksha Chauhan
5. Ms. Priyanka Chauhan
6. Dr. Amrik S. Thakur
7. Ms. Anita
8. Ms. Kriti Dhaulta
9. Mr. Rakesh Kumar
10. Mr. Umesh Rana

Compering

1. Dr. Kamayani Bisht
2. Dr. Satya Narain Suehi



Image: National Seminar on Crime Against Women: The Devi Violated

National Seminar on Sustainable Development: Issues & Challenges



Department of Geography
&
Department of Economics

Centre of Excellence
Govt. College, Sanjauli

jointly organize
a
National Seminar
on
**Sustainable Development:
Issues & Challenges**
(October 22 & 23, 2021)

Sponsored by



Indian Council of
Social Science Research
NW Regional Centre:
P. U. Chandigarh

Patron: Dr. C. B. Mehta
(Principal)

Senior Chair: Dr. Bhupinder Singh Thakur

Organizing Secretary: Mrs. Bharti Bhagra
(94183-10988)

Coordinator: Dr. Manoj Jaret
(94184-88886)

Convener: Mr. Rajesh Dhoria

Executive Team: Dr. Maneesha Kohli
Dr. Kamna Mahendru Negi
Dr. T. R. Sharma
Dr. G. P. Kapoor
Mrs. Saachi Sood

Team of Organizers

Advisors

1. Dr. Ram Lal Sharma (Associate Professor, GC Theog)
2. Ms. Mona Sharma (Assistant Professor, GC Dhams)

Screening & Publication

1. Dr. Gian Chand
2. Dr. Kamayani Bisht
3. Dr. Vinay Mohan Sharma
4. Ms. Namita Chauhan Khagta
5. Mr. Aditya Singh Dulta
6. Dr. Satya Narain Sneh
7. Mr. Sandesh Kumar Kalta
8. Mr. Shubham Choudhary

Brochure, Certificates, Invitation & Banner

1. Dr. Nareesh Verma
2. Mrs. Bharti Sharma
3. Mr. Rameshwar S. Jhobta
4. Mrs. Deepti Gupta
5. Dr. Kirti Singha
6. Dr. Ajay Kaith
7. Mrs. Hemlata Sharma
8. Dr. Vikas Nathan

Conference Proceedings

1. Mrs. Himansu Saxena
2. Dr. Minakshi Sharma
3. Dr. Nidhi Dhatwalia
4. Dr. Kishori Lal
5. Ms. Priyanka

Media, Publicity & Photography

1. Dr. Satya Narain Sneh
2. Mr. Sandesh Kumar Kalta
3. Mr. Shubham Choudhary

Registration

1. Dr. Ruby Kapoor
2. Mr. Yogesh Kumar
3. Dr. Ajay Kaith
4. Dr. Vikas Nathan

Accommodation & Transport

1. Mr. Manoj Mehta (94184-55577)
2. Dr. Surinder Chauhan (94184-54474)
3. Dr. Anjana Sharma (98171-15030)
4. Dr. Om Prakash (70185-47746)

Finance & Collaboration

1. Dr. Maneesha Kohli
2. Dr. Minakshi Sharma
3. Dr. Nidhi Dhatwalia
4. Mrs. Shiwan Kaprate
5. Mr. Amrit Mehta

Venue Management & Decoration

1. Dr. Anita Rathour Chauhan
2. Dr. Monika Chandel
3. Ms. Rita Chandel
4. Dr. Poonima Verma
5. Dr. Poonam Sharma
6. Dr. Devender Chand
7. Mr. Mrityunjay Sharma
8. Mr. Muneet Lakharpal

Refreshment

1. Dr. Sandhya Sharma
2. Dr. Bavita Thakur
3. Ms. Kamlesh Kumari
4. Dr. Poonima Thapar
5. Ms. Prateeksha Chauhan
6. Ms. Priyanka Chauhan
7. Dr. Amrik S. Thakur
8. Ms. Anita
9. Ms. Kriti Dhaulla
10. Mr. Rakesh Kumar
11. Mr. Sooraj Jamalia

Compering

1. Dr. Kamayani Bisht
2. Dr. Satya Narain Sneh

Correspondence

1. Mrs. Bharti Bhagra (94183-10988)
2. Dr. T. R. Sharma (94181-10012)
3. Dr. G. P. Kapoor (70110-80221)
4. Mrs. Saachi Sood (98166-39313)



Image: Brochure and paper presentation during the seminar



SEMINAR ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT

A national seminar, sponsored by the ICSSR, was held at Government College, Sanjauli, on 'Sustainable Development'. As many as 20 papers were selected for presentation during the seminar after discussion and deliberations. The speakers on the occasion engaged the audience through academic discourse.



Image: glimpses of the Seminar

Workshop on IPR: The Way Ahead to Protect Ideas

REPORT ON ONE-DAY WORKSHOP ON “INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS: THE WAY AHEAD TO PROTECT IDEAS”

(17th November 2021)

One day Workshop on “INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS: THE WAY AHEAD TO PROTECT IDEAS” was organised by COE, Govt. Degree College Sanjauli, Shimla in collaboration with Biotechnology Incubation Centre, Department of Biotechnology H.P. University Shimla-05 on 17th November 2021. The Chief patron of the workshop was Prof. Sikandar Kumar Hon’ble Vice Chancellor, H.P. University Shimla-05 and the patron were Dr. Chander Bhan Mehta Principal, Centre of Excellence, Govt. College Sanjauli Shimla-06 and Prof. Arvind Kumar Bhatt Professor, Deptt. of Biotechnology H.P. University Shimla-05. The Convener of the workshop was Dr. Maneesha Kohli Associate Professor, Govt. College Sanjauli Shimla-06 and the Co-ordinator was Dr. Ravi Kant Bhatia Assistant Professor, Deptt. of Biotechnology H. P. The workshop was sponsored by HIMCOSTE Govt. of H.P. Shimla and HPCED Deptt. of Industries Govt. Shimla.

ONE-DAY WORKSHOP ON "INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS: THE WAY AHEAD TO PROTECT IDEAS" (17th November 2021)

Organized by
Centre of Excellence
Govt. College Sanjauli Shimla-06

In association with
BIC-HPU
Biotechnology Incubation Centre
Department of Biotechnology
HP University Shimla-05

ABOUT GOVT. COLLEGE SANJAU LI
Nestled in the lap of nature and housed in a heritage building, the Centre of Excellence, Govt. College Sanjauli, Shimla, HP, has been providing an academically and intellectually stimulating environment to the students. Situated in the heart of the city, this college has a long tradition of excellence. The institute carries a legacy of teaching and learning. In its initial days, it was an Industrial School for female orphans. It was upgraded during the pre-independence days to B.Ed. /B.T. College for girls, affiliated to Punjab University. Since 1969, this college has been catering to the needs of the students from the length and breadth of Himachal Pradesh. The college was given the honorary status of "Centre of Excellence" in the year 2006 by H.P. Government and earned a B+ grade from NAAC in the year 2017.

ABOUT BIC-HPU
Biotechnology Incubation Centre (BIC-HPU) is located in Multi-Faculty Building, Phase-I, in the Department of Biotechnology in the main University Campus which was established in 2017 with initial support from Department of Industry, Govt. of Himachal Pradesh. The mission of the Biotechnology Incubation Centre includes

- To facilitate researchers to transfer lab technology to industries.
- To provide working space and all other facilities to the budding entrepreneurs.
- To promote interaction with Biotechnology-based industries.
- To encourage the entrepreneurs to utilize the Himalayan resources.

OBJECTIVES OF WORKSHOP
Intellectual Property Rights (IPR) are the rights that protect intangible creations of the human intellect. There are many types of intellectual property, and the most well-known types are copyrights, patents, trademarks, and trade secrets. The modern concept of intellectual property was developed in England in the 17th century, though it was not until the late 20th century that intellectual property became common place in the majority of the world's legal systems. The main purpose of intellectual property law is to encourage the creation of a wide variety of intellectual goods. To achieve this, the law gives people and businesses property rights to the information and intellectual goods they create, usually for a limited period of time. This gives economic incentive as it allows people to benefit from the information and intellectual goods they create, and allows them to protect their ideas. These economic incentives are expected to

Image: Report and brochure for Workshop on IPR

stimulate innovation and contribute to the technological progress of countries, which depend on the extent of protection granted to the innovators. This workshop will help all the concerned to get updated knowledge on IPR and also motivate them to protect their intellectual ideas.

WHO SHOULD ATTEND
Students, research scholars and faculty members and startups/entrepreneurs or any people who have some innovative ideas and want to protect his/her innovation from the infringements.

Note: Participants will receive Certificates.

REGISTRATION
There is no registration fee for this programme, though, **prior registration is necessary** for the participants.

CLICK HERE FOR REGISTRATION
<https://forms.gle/W97GmHfc4kHvFNr8>
The last date for registration is 15th November, 2021.

ABOUT SPEAKERS

1. **Dr. S. K. Soni** Professor Microbiology at Punjab University, Chandigarh, Punjab (*Key Note Speaker*)
2. **Dr. S. S. Kanwar** Professor Department of Biotechnology HP University Shimla (*Hands on Expert*)
3. **Dr. Wamik Azami** Professor Department of Biotechnology HP University Shimla (*Speaker*)
4. **Dr. Shashi Dhar** Coordinator, HP Patent Information (HPPIC) HIMCOSTE (*Speaker*)

CHIEF PATRON
Prof. Sikandar Kumar
Hon'ble Vice Chancellor, HP University Shimla-05

PATRON
Dr. Chander Bhan Mehta
Principal, Centre of Excellence, Govt. College Sanjauli Shimla-06

Prof. Arvind Kumar Bhatt
Professor, Deptt. of Biotechnology HP University Shimla-05

CONVENER
Dr. Maneesha Kohli
Associate Professor, Govt. College Sanjauli Shimla-06

CO-ORDINATOR
Dr. Ravi Kant Bhatia
Assistant Professor, Dept. of Biotechnology HP University Shimla-05

ADVISORY COMMITTEE

1. Dr. Deepika Khatri Manager IIPCED
2. Mr. Yogesh Gupta GM DIC Shimla
3. Dr. S. S. Randhava PSO HIMCOSTE
4. Dr. Umesh Pathania
5. Dr. M. L. Thakar
6. Dr. B. S. Thakar
7. Mrs. Bharti Bhagra
8. Dr. Manoj Jaret
9. Mr. Rajesh Dhorta
10. Dr. Kamana Mahendru

ORGANISING COMMITTEE

1. Dr. Anju Sharma
2. Dr. Anant Vidya Nidhi
3. Dr. Sandhya Sharma
4. Mrs. Bharti Sharma
5. Dr. Surinder Chauhan
6. Dr. Minakshi Sharma
7. Dr. Nidhi Sood

8. Mrs. Shiwani Kaprate
9. Mrs. Deepu Gupta
10. Dr. Kirti Singha
11. Dr. Monika Chandel
12. Mr. Yogesh Kumar
13. Mrs. Reeta Chandel
14. Dr. Anjana Sharma
15. Dr. Poonam Sharma
16. Dr. Vikas Nathan
17. Mr. Shubham Choudhary
18. Mr. Mritunjya Sharma

ORGANISING SECRETARIES

1. Chirag Sharma
2. Abhay Karol
3. Avantika Panta
4. Mohit Kumar
5. Nitika Verma
6. Ankit Kumar
7. Aditi Chandel
8. Tamana Manta
9. Sahil Tegta
10. Jyoti

SPONSORED BY

Image : Resource Persons and Organising Committee of the Workshop




Image: Feedback on the workshop given by students



Image: Glimpses of the workshop on IPR

Department of Commerce

Centre of Excellence Government College Sanjauli, Shimla

“Investors’ Awareness Programme”

Department of Commerce, Government College Sanjauli has organised a webinar for all the faculty members of the college. The webinar was organised on 15th February, 2021 on Zoom platform. It was an “Investors’ Awareness Programme” and jointly organised by COE and Ambitions Solutions Mumbai. The resource person was Mr. Raghunandan Pattanaik. All the faculty members of the institution attended this programme. The resource person discuss in details the various aspect of the financial planning for the individual which he/she should do in the life to maximise the wealth through diversification of portfolios to avoid the risk involved in the various investment schemes.

HOD

Department of Commerce

Prof. Rajesh Dhorta

2nd September, 2020: Organised and conducted by GoTo Webinar, this online Faculty Development Programme was attended by the members of faculty of Commerce. The topic of the webinar was TDS and GST. It was especially for the faculty of Commerce of Himachal Pradesh and Uttarakhand.

National Science Day - 2020

Report National Science Day-2020

As a part of Golden jubilee celebrations Centre of Excellence Govt college Sanjauli Celebrated National Science Day on 27th-28th February, 2020. Series of events were organized by the Science faculties. It was a mega event organised in collaboration with **Thapar Institute of Engineering and Technology (TIET)** in which the following five colleges in and around Shimla participated in the competition:

1. Govt. College Theog
2. Rajiv Gandhi Govt. Degree College Chaura- Maidan (Kotshera)
3. St. Bedes College, Shimla
4. Rajkiya Kanya Mahavidyalya (RKMV)
5. Centre of Excellence Govt college Sanjauli


The Following events were organised:

1. Poster making competition was organised on 27th February, 2020 on the following themes:
 - The Periodic Table of Elements: Use for Human Welfare
 - Biodiversity
 - Hazards of Nuclear Weapons
 - Viral Diseases – Symptoms, precautions & cure
 - Electronic Wastes – Challenges & Remedies
 - Mathematical Representation of Algebraic Formula



Workshop on Scope of Botany Beyond Phylogeny Characterization to Application Research

A two day workshop was organized by Department of Botany, Centre of Excellence G.C Sanjauli in collaboration with Wet lab championship & E-cell (IIT Bombay Event) on SCOPE OF BOTANY BEYOND PHYLOGENY CHARACTERIZATION TO APPLICATION ORIENTED RESEARCH on 4TH & 5TH March 2020. The resource person for the workshop was Dr Tanuj Sharma, Extramural Research Scientist PRTF, Greater Noida. The resource person was welcomed by Prof Deepti Gupta H.O.D Department of Botany.



Dr Tanuj elucidated the concept of Bioinformatics and stressed the role of programmes like BLAST, PDB, SMP and SWISPROT in the field of Botanical Sciences.

Workshop on Overcoming Pandemic Blues in Higher Education Through Information Technology: A Road Map

REPORT on Workshop on Overcoming Pandemic Blues in Higher Education Through information Technology: A Road Map

Crisis require society to renew itself, albeit in a disruptive way. The current Covid- 19 pandemic is transforming ways of working, living and relating to each other on a global level, suddenly and dramatically. The present workshop is organized by Centre of Excellence, Govt. College Sanjauli on the field of education with the title "Overcoming Pandemic Blues in Higher Education Through information Technology: A Road Map" on June, 14, 2020 to show how higher education institutions are undergoing radical transformations driven by the need to digitalize education and training processes in record time with academics who lack innate technological capabilities for online teaching..



The speakers for the workshop were Dr. D. K. Chaudhary, Vice Chancellor, APG Shimla University, Dr. Pramod Chauhan, Joint Director, Higher Education, Dr. P. K. Ahluwalia, Former Professor of Physics, Dean Planning and Director UIIT, HPU Shimla. Dr. R. L. Sharma, Associate Professor of Economics, Govt. College Sanjauli, convener and moderator

Workshop on e- content Creation and Management

E-CONTENT CREATION, MANAGEMENT AND EVALUATION 17th July 2020




संजौली कॉलेज में शिक्षकों को मिले ऑनलाइन शिक्षण के टिप्स; कार्यशाला में मिली गूगल क्लासरूम, ओबीएस, लरनिंग मैनेजमेंट सिस्टम की जानकारी

राजधानी शिमला स्थित उत्कृष्ट शिक्षा केन्द्र राजकीय महाविद्यालय संजौली में आज दिनांक 17 जुलाई 2020 को ई-कंटेंट क्रिएशन, मैनेजमेंट एंड इवैल्यूएशन विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। महाविद्यालय संगोष्ठी कक्ष में आयोजित इस कार्यशाला में जहां लगभग 40 प्राध्यापकों ने महाविद्यालय आकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई, वहीं गूगल-मीट के द्वारा प्रदेशभर से लगभग डेढ़ सौ प्राध्यापक इस आयोजन से जुड़कर लाभान्वित हुए।

कार्यक्रम में वतौर मुख्य अतिथि शामिल प्राचार्य डॉ. चंद्रभान मेहता ने कोविड-19 संकट के इस दौर में अत्यधिक प्रासंगिक इस सफल आयोजन के लिए हर्ष की अनुभूति करते हुए कार्यशाला आयोजकों को बधाई दी। डॉ. मेहता ने कहा कि जहां एक ओर आज से महाविद्यालय में विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है वहीं ऑनलाइन माध्यमों द्वारा शिक्षण प्रक्रिया के कार्यान्वयन के लिए शिक्षकों को भी और अधिक समर्थ एवं निपुण बनाने की कोशिशें भी महाविद्यालय लगातार कर रहा है।

कार्यशाला में महाविद्यालय के कंप्यूटर विभाग अध्यक्ष प्रो. मृत्युंजय शर्मा ने मुख्य वक्ता के रूप में शिरकत की। श्री शर्मा ने ई-कंटेंट के मौलिक सिद्धांतों पर प्रकाश डालते हुए शिक्षण प्रशिक्षण प्रक्रिया में ओपन सोर्स क्लासरूम सॉफ्टवेयर और लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के प्रयोग करने की विधि बड़े ही सरल शब्दों में सभी प्रतिभागियों को अपनी प्रस्तुति द्वारा समझाई। वहीं विषय विशेषज्ञ महाविद्यालय के जियोलाजी विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर शुभम चौधरी ने गूगल क्लासरूम के द्वारा शिक्षण सामग्री तैयार करने एवं वीडियो और ऑडियो माध्यमों द्वारा ऑनलाइन शिक्षण प्रक्रिया के सभी पहलुओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। कार्यशाला में प्रो. विकास नाथन और प्रो. संदेश काल्टा ने तकनीकी एवं संचार व्यवस्था की जिम्मेदारी संभाली।

Workshop on Biopython, Drupal, Avogadro, R Programming, Libre Office



FACULTY DEVELOPMENT PROGRAM
Centre of Excellence Government College
Sanjauli, Shimla is organizing '7 Days... See more

Centre of Excellence
Government College Sanjauli

NO FEE 7 DAY ONLINE FACULTY DEVELOPMENT PROGRAMME

8th May, 2020 to 14th May 2020

Biopython

Drupal

Avogadro

R Programming

LibreOffice Suite

ONLINE EDUCATION

Contact for Queries: Dr. C.S. Sharma (Principal, Govt. College Sanjauli), Mrs. Shashi Chhabra (Organising Secretary, Ph no. +91-9802719622), Dr. Sandeep Sharma (Assistant Professor, Faculty Coordinator, Ph no. +91-9802719622)

Pandit Madan Mohan Malaviya National Mission on Teachers and Teaching - FDP Statistics

State: Himachal Pradesh
 Level: Faculty
 Type: FDP
 From Range: 2020

Filter (Reset filters)

Total number of Workshops/Training: 7
 Total number of Facilitators: 7
 Total participants (inward): 82
 Total participants (outward): 18
 Total participants (total): 100

#	State	City	Institution	HEED	Event/Workshop	Topic	Start Date	End Date	Facilitator	Action
1	Himachal Pradesh	Sanjauli	Govt. College Sanjauli	B	Faculty Development Program (FDP)	Online Education (E-Content)	08/05/2020	14/05/2020	Dr. C.S. Sharma	View Download
2	Himachal Pradesh	Sanjauli	Govt. College Sanjauli	B	Faculty Development Program (FDP)	Online Education (E-Content)	08/05/2020	14/05/2020	Dr. C.S. Sharma	View Download
3	Himachal Pradesh	Sanjauli	Govt. College Sanjauli	B	Faculty Development Program (FDP)	Online Education (E-Content)	08/05/2020	14/05/2020	Dr. C.S. Sharma	View Download
4	Himachal Pradesh	Sanjauli	Govt. College Sanjauli	B	Faculty Development Program (FDP)	Online Education (E-Content)	08/05/2020	14/05/2020	Dr. C.S. Sharma	View Download
5	Himachal Pradesh	Sanjauli	Govt. College Sanjauli	B	Faculty Development Program (FDP)	Online Education (E-Content)	08/05/2020	14/05/2020	Dr. C.S. Sharma	View Download
6	Himachal Pradesh	Sanjauli	Govt. College Sanjauli	B	Faculty Development Program (FDP)	Online Education (E-Content)	08/05/2020	14/05/2020	Dr. C.S. Sharma	View Download


Workshop on Self-employment Through Government Schemes



Centre of Excellence, Government College, Sanjauli - H.P.

25 Feb 2020 · 🌐

Workshop on self employment through government schemes.



Centre of Excellence, Government College, Sanjauli - H.P.

25 Feb 2020 · 🌐

Workshop conducted by Career and placement cell in collaboration with Khadi and village Industries commission under the ministry of Micro, Small and Medium Enterprises regarding the self employment Scheme of GOI. In this workshop the scheme of self employment is GOI has been discussed ,how we can solve the problem of unemployment in the country.



Workshop on National Education Policy



Image: Sh. Gobind Singh Thakur, Education Minister, Himachal Pradesh addressing the gathering on NEP-2020 Workshop.



Image: Participants during workshop on NEP-2020



Image: Discussion on NEP-2020

Workshop on Science and Scientific Temperament



अंधविश्वास को बढ़ावा देने के बजाय वैज्ञानिक दृष्टिकोण को समझा जाए

सिटी रिपोर्टर | शिमला

सेन्टर ऑफ एक्मालेंस कॉलेज सजीली में विज्ञान और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के महत्व पर पर कार्यशाला करवाई गई। कॉलेज की साइटोफेब एंड पॉलीमर सोसायटी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में लुधियाना से आमंत्रित प्रोफेसर वरुण कुमार ने मुख्य वक्ता के रूप में शिरकत की। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि आज के समय में संपूर्ण मानव जाति के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपरिहार्य है। इसलिए सभी को अपने हरेक क्रियाकलाप के मूल में समाहित विज्ञान को पहचानने की दृष्टि विकसित करनी चाहिए। लोगों को मगदुत विचार को समर्पित कर अंधविश्वास नहीं बढ़ाना चाहिए। उन्होंने भारतीय समाज की रोजमर्रा की अनेक घटनाओं और कार्य शैलियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण की अमदेखी किए जाने के अनेकों उदाहरण प्रस्तुत कर



सजीली कॉलेज में विज्ञान और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के महत्व पर पर कार्यशाला करवाई गई।

श्रोताओं को आत्मचिंतन व स्वालोकन करने पर मजबूर कर दिया। लगभग तीन घंटे चले इस कार्यक्रम में लगभग 500 के करीब स्टूडेंट ने भाग लिया। इस अवसर पर डॉ. मंदीप चौहान ने कहा कि छात्रों की भारी संख्या में इस कार्यक्रम में भागीदारी और अनेकों प्रतिभागियों द्वारा विशेषज्ञ से सवाल पूछे गए। सभी श्रोताओं, विशेषकर छात्रों ने इस कार्यशाला का भरपूर आनंद लिया और आयोजकों से ऐसे ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कार्यक्रम भविष्य में भी बार बार करवाने का आह्वान किया।



Image: Glimpses of the workshop on Science and Scientific Temperament

Workshop on Stress Management



Seminar on "Operating Systems- Concepts and Implementation"
(October 17,2019)



A seminar was organized by the Computer Science Society on various topics of Operating System. All students of 5th Semester were given topics and they demonstrated and explained the topic assigned by PowerPoint presentation. They were marked on their content, confidence, explanation and illustration. The audience included faculty of BCA and interested students of all the years. The seminar was organized with the aim that students get to know how the Operating system works and the main story behind its operation and implementation.



The seminar started from very basic definition of

operating system and its types, how operating system is loaded during startup and then moved to some advanced topics such as Scheduling, System calls, Process-its states and modes, Multithreading, Virtual memory, Paging and Segmentation. Focus was laid on the use of Real time operating system and their implementation. This was also a learning experience for the second and first year students. They asked questions to the participants to get a better understanding of the concept.



Image: Workshop on Hands on Computer by Deptt. of Computer Science

Workshop on SWEEP by Department of Pol. Science



Workshop cum Science Day Celebration – 2019





Workshop on Future Prospects in IT Industry



Workshop on Pioneering, Knot Making and Lashing

A One-Day Workshop on Pioneering, Knot Making and Lashings was organized on 24th September 2019. in the Conference Hall of the College for the Rovers and Rangers to train them in different techniques of Pioneering, Knot making and Lashings. The main motive behind the workshop was to prepare the Rovers and Rangers for the 'State Level Rover-Ranger Moot- 2019' at State Training Centre (STC) Rewalsar, Distt. Mandi, HP w.e.f. 26th to 30th September 2019. Rover Scout Leader Sh. Himmat Singh Thakur from Devbhumi Oper Crew, Kullu, HP guided the Rovers and Rangers through various techniques of pioneering and lashings.

संजौली कालेज में रोवर्स एंड रेंजर्स की वर्कशॉप

नगर संवाददाता-शिमला

उत्कृष्ट शिक्षा केंद्र राजकीय महाविद्यालय संजौली में मंगलवार को स्थानीय रोवर्स एंड रेंजर्स इकाई द्वारा एकदिवसीय पियनियरिंग कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में छात्रों ने बद्ध-चढ़कर भाग लिया। कार्यशाला के दौरान छात्रों को समाज सेवा व नशे से दूर रहने के लिए जागरूक भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान महाविद्यालय के प्राचार्य डा. चंद्र भान मेहता ने इस कार्यशाला की अध्यक्षता की। देवभूमि रोवर्स ओपन के रोवर्स

स्काउट लीडर हिम्मत ठाकुर ने इस कार्यशाला में बतौर विशेषज्ञ शिरकत की। उनके अलावा सहायक रोवर्स स्काउट लीडर विवेक शर्मा भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। हिम्मत ठाकुर ने उपस्थित प्रतिभागी रोवर्स और रेंजर्स को जहां एक ओर स्काउटिंग के विभिन्न सौपानों से परिचित करवाते हुए अधिक से अधिक विद्यार्थियों को समाज व आत्मविकास के इस आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया, वहीं कम से कम साधनों से ही अधिक एवं बेहतरीन इस्तेमाल किए जाने की अनेक विधाएं भी साझा की।



Workshop on Innovative Ideas for Water Conservation/Waste management and Cleanliness





संजौली कॉलेज के तरुण और आकांक्षा रहे अब्बल
जल संग्रहण पर आयोजित स्पर्धा में पाया सम्मान

अमर उजवाला ब्यूरो

शिमला, 19 सितम्बर। संजौली कॉलेज के तरुण और आकांक्षा रहे अब्बल जल संग्रहण पर आयोजित स्पर्धा में पाया सम्मान।

शिमला, 19 सितम्बर। संजौली कॉलेज के तरुण और आकांक्षा रहे अब्बल जल संग्रहण पर आयोजित स्पर्धा में पाया सम्मान।

शिमला, 20 सितम्बर, 2019

संजौली कॉलेज में पानी बचाने के तरीके बताए

दिनांक 19 सितम्बर 2019। शिमला।

शिमला, 19 सितम्बर 2019। संजौली कॉलेज में पानी बचाने के तरीके बताए।

स्वयंसेवियों ने की कार्यशाला

शिमला, 19 सितम्बर (ब्यूरो) : महाविद्यालय संजौली की राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा एकदिवसीय गोल्डन जुबली के उपलक्ष्य पर कार्यशाला का आयोजन किया गया।

इस कार्यशाला का शीर्षक पानी के संरक्षण और संवर्द्धन के नए तरीके था। कार्यशाला में कालेज के प्राचार्य डा. सी.बी. मेहता ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की, वहीं कालेज के पूर्व छात्र व एन.एस.एस. के नेशनल अवाार्ड नरेश चौहान वरिष्ठ अतिथि थे। कालेज प्राचार्य व मुख्यातिथि सी.बी. मेहता ने कहा कि स्वयंसेवी समाज में फैली कुरीतियों तथा समाज में नैचुरल रिसोर्सिज के संरक्षण के प्रति जागरूक करने का पवन कार्य कर रहे हैं।

Workshop on 150th Year Celebration of Mahatma Gandhi

REPORT On

Workshop on 150th Year Celebration of Mahatma Gandhi

To Commemorate the 150th birth anniversary of Mahatma Gandhi, Centre of Excellence Govt. College Sanjauli organized a workshop on Mahatma Gandhi's Philosophy in collaboration with H. P. Commission for Protection of Child Rights (HPSCPCR) on November, 18, 2019. In the workshop the views of Gandhi ji's were discussed in detail. Gandhi ji immensely love children and viewed them as true followers of truth. Their innocence captivated him and was often moved by their pure actions and thoughts. Gandhi ji was against employment of children of school going age. His thoughts were against trafficking of children and makes them work through hard labour at a tender age. Dr. R. L. Sharma convener of the workshop welcomed the guest and participants.



Dr. R. L. Sharma
Convener

Dr. C. B. Mehta
Principal

Workshop on Drug Abuse



युवाओं को नशा के दलदल की ओर धकेल रहा है अकेलापन

संजीली कॉलेज में नशा मुक्त हिमाचल पर अद्योदिन कार्यक्रम में आईसीएलसी प्रदर्शन डॉ. रविचंद्र ने किया खुलवाया, बोले-नशा छोड़ने के लिए दूर रहना जरूरी



Amar Ujala
Page No. 4,
7th Sept. 2018

हिमाचल को नशा मुक्त बनाने के लिए युवा वर्ग का जागरूक होना आवश्यक: एमआर मरड़ी

• संजीली कॉलेज में छात्रों को नशा से दूर रहने का दिया संदेश
शिमला (विशेष) रिपोर्टर



राजकीय महाविद्यालय संजीली में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर डॉक्टर रविचंद्र ने अकेलापन से बचने के लिए युवाओं को जागरूक करने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त हिमाचल बनाने के लिए युवा वर्ग का जागरूक होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त हिमाचल बनाने के लिए युवा वर्ग का जागरूक होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त हिमाचल बनाने के लिए युवा वर्ग का जागरूक होना आवश्यक है।

पुलिस ने तीन सिबेट्स बरामद करती। जहां बरामद का भी पता चलता है कि राज्य को नशा मुक्त बनाना जरूरी है। इसके लिए मुख्यमंत्री की कृति है कि पहले ही, फिर भी परिवार और हम सब युवा अकेलापन में डूबकर नशा मुक्त हिमाचल बनाने के लिए युवा वर्ग का जागरूक होना आवश्यक है। संजीली कॉलेज में अकेलापन को रोकने के लिए दूर रहना जरूरी है। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त हिमाचल बनाने के लिए युवा वर्ग का जागरूक होना आवश्यक है।

Shimla Baskar Page No. 2, 7th Sept. 2018

Workshop on Disaster Risk reduction

The Disaster Management Cell of the Centre of Excellence, Govt. College Sanjauli, organized a training programme on Disaster Risk Reduction on the 16th, 20th and 21st of August 2018 in the college seminar hall, in collaboration with State Disaster Management Authority Himachal Pradesh and Shimla based Non-Government Organization, DOERS. The aim of the programme was to disseminate the information and to impart the knowledge regarding disaster preparedness and mitigation of its effects. The volunteers from the college RED CROSS, NCC, NSS, Rangers



& Rovers units were selected for this workshop to gain some practical knowledge in order to help the victims during and after a disaster have happened.

The chief guest of the event was Dr. Sadhna Thakur, wife of Honourable Chief Minister of Himachal Pradesh. She is a Medical Superintendent in Vidhan Sabha Hospital in Chaura Madaan

and also chairperson of Hospital Welfare Society, Himachal Pradesh. She arrived sharp at 10 AM to grace the occasion. Dr C.B. Mehta, the Principal of the college welcomed the chief guest and accompanied her for lighting of lamp in front of Saraswati Maan. Dr. GP Kapoor, coordinator of Disaster Management Cell and the Red Cross Unit of the college expressed her views about the three-day training programme along with its implications. She also welcomed



One Day Workshop on Experimental Physics in Collaboration with Department of Physics , JUIT Waknaghat

One Day Workshop on Experimental Physics in collaboration with Department of Physics JUIT Waknaghat



Experimental data acquisition using computer system

A lecture cum demonstration was organised by Deptt. of Physics on August, 21st, 2018 under UPSS (undergraduate physics students society) in college Auditorium. Principal of the college Dr. C.B. Mehta presided over the programme.

The event started with pinning of rosette to Principal of the college and speaker of the day followed by auspicious lamp lighting ceremony. Prof. Kirti Singha introduced the speaker of the day and welcomed the audience. Dr. Pawan Sharma (HOD) gave a brief review of the various activities performed and achievements of the students and faculty of Physics Department and shared his long term association with the speaker. Speaker of the day Dr. O.S.K.S. Sastri presently working as Professor of Physics, Department of Physics and Astronomical Sciences, Central University of Himachal Pradesh, He started his lecture by offering Saraswati Vandana. He gave an elaborated and detailed demonstration on data acquisition by using such a small device known as ExpEYES-17.....A Portable Science Laboratory. He performed few experiments on electronics and mechanics by using this portable device which, we are also performing in our physics labs with apparatus and demonstrated that how the data acquisition is done by using computer system. About 70 to 80 experiments can be performed by this device. A good number of students from 1st year, 3rd and 5th semester participated in performing the experiments with the speaker. Overall, it was a great experience and the demonstration was highly informative and practical. so many ideas and concepts got added to the knowledge level of students and faculty. Definitely, it would be a great experience to add this small kit to our laboratories. Beside this demonstration, also motivated the students to understand physics and develop a habit of asking questions. Dr.



Workshop on Astronomy

Astronomy session on 6th October 2018

A star watching activity of one and half hour was organized by Department of Physics, Government Degree College Sanjauli in the evening of 6th October 2018.

Dr Pawan K Sharma explained about the various terms of sky like altitude, azimuthal angle, ecliptic etc.

Students enjoyed view of the Galilean moons of Jupiter using a 130 mm Newtonian telescope.

Dr Brij Mohan, Assistant Professor was also present during the program.



Workshop on Rain Water Harvesting

रेन वाटर हारवैस्टिंग पर छात्रों को दी जानकारी

शिमला, 8 दिसम्बर (ब्यूरो) : सेंटर ऑफ एक्सीलेंस संजौली कालेज में ईको क्लब की ओर से छात्रों के लिए एकदिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में इंजीनियर नीरज कंवर ने छात्रों को रेन वाटर हारवैस्टिंग विषय पर जानकारी प्रदान की। इस दौरान छात्रों को बताया कि कैसे वर्षा के जल को संग्रहित कर इसे उपयोग में लाया जा सकता है। इसके लिए सभी भवन मालिकों को भवन निर्माण करते समय रेन वाटर हारवैस्टिंग टैंक का निर्माण करना चाहिए ताकि वर्षा के जल को उपयोग में लाया जा सके। इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी विभाग के प्रो. डा. अनिल कंवर ने छात्रों को ई-वेस्ट के बारे में जानकारी प्रदान की। कार्यक्रम की अध्यक्षता कालेज की कार्यवाहक प्राचार्य डा. भारती भागड़ा ने की। इस दौरान ईको क्लब के सभी सदस्य तथा छात्र मौजूद रहे।

पंजाब केसरी
ई-पेपर

Sun, 09 December 2018
<https://epaper.punjabkesari.in/c/3>



Dr. Nidhi Dhatwalia, A.P. Zoology



संजौली कॉलेज में आयोजित कार्यशाला में भाग लेते विद्यार्थी।

ई वेस्ट पैदा करने में चौथे स्थान पर भारत

शिमला। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस संजौली कालेज में शनिवार को इको क्लब ने सदस्यों और आम छात्र-छात्राओं को वर्षा जल संग्रहण की तकनीकों की जानकारी दी गई। कालेज में आयोजित कार्यशाला में कैरियर प्वाइंट यूनिवर्सिटी से आए सिविल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर नीरज कंवर ने विद्यार्थियों को रेन वाटर हारवैस्टिंग से अवगत करवाया। कार्यशाला में माइक्रोबायोलॉजी विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉ. अनिल कंवर ने बताया कि भारत संसार में ई वेस्ट (इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट) देने वाला चौथा देश है। यहाँ बहुत अधिक मात्रा में ई वेस्ट निकलता है, यह देश के लिए चिंता विषय है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को ठिकाने लगाने के लिए समय रहते ठोस कदम उठाने होंगे। ई वेस्ट को किस तरह से ठिकाने लगाया जाए कि प्रदूषण न हो, इस पर हमें समय रहते न केवल सोचना होगा बल्कि इसे लेकर कदम भी उठाने होंगे। बायोलिचिंग तकनीक से सूक्ष्म जीवों का प्रयोग कर प्रदूषण रहित ई वेस्ट की रिसाइक्लिंग की जा सकती है। कालेज की कार्यवाहक प्राचार्य भारती भागड़ा ने विशेषज्ञों का महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आभार जताया और इको क्लब की इस कार्यशाला आयोजन पर सराहना की। क्लब समन्वयक चिरंजीलाल और इको क्लब सदस्य अनिल ठाकुर, डॉ. मीनाक्षी शर्मा, डॉ. शिवानी कपरेट और डॉ. निधि डडवालिया ने सहयोग किया।

Workshop on Biotechnological Techniques



कार्यशाला का आयोजन

शिमला, 15 दिसम्बर (ब्यूरो): सैंटर ऑफ एक्सीलेंस संजौली कालेज में शनिवार को बायोटेक्नोलॉजी तकनीकों पर एकदिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का आयोजन कालेज के बायोटेक्नोलॉजी विभाग व बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोइन्फोर्मेटिक्स विभाग जे.पी. वि. वि. वाकनाघाट के संयुक्त तत्वावधान से किया गया। इस मौके पर जे.पी. वि. वि. के कुलपति प्रो. विनोद कुमार, प्रो. समीरदेव गुप्ता व मेजर जनरल राकेश बसौ मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम में छात्रों व वक्ताओं के बीच बायोटेक्नोलॉजी तकनीकों पर पैल डिस्कशन हुआ। कालेज के प्रिंसिपल डा. सी.बी. मेहता ने कार्यशाला के मुख्य बिन्दुओं पर विस्तार से जानकारी प्रदान की।

Punjab Kesri, Shimla Kesri page no.2 on 16.12.2018

संजौली कॉलेज में बायोसाइंस विभाग ने किया कार्यशाला का आयोजन

शिमला। संजौली कॉलेज के बायोसाइंस विभाग और जेपी विविवाकनाघाट के बायोइंफार्मेटिक्स विभाग के साथ मिलकर शनिवार को कार्यशाला का आयोजन किया। कॉलेज प्राचार्य डॉ. सीबी मेहता ने मुख्यातिथि के रूप में शिरकत कर कार्यशाला का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि हर छात्र कॉलेज में आयोजित की जाने वाली इस तरह की शैक्षणिक गतिविधियों में हर हाल में हिस्सा लें। इससे उनका ज्ञान बढ़ेगा और विषय को लेकर समझ बढ़ती है। कहा कि बायोटेक्नोलॉजी क्षेत्र में भागेदारी बढ़ेगी और छात्र शोध कार्य कर समाज तथा राष्ट्रहित के लिए नई-नई तकनीकों को विकसित कर सकेंगे। कार्यशाला में जेपी यूनिवर्सिटी के प्रो. सुधीर कुमार, डॉ. अनिलकांत ठाकुर, डॉ. राहुल श्रीवास्तव, डॉ. रघु एम चेन्ना माली ने बायो गैस रियेक्टर, पीसी आई और माइक्रोबायोलॉजी का डेमोस्ट्रेशन भी दिया। कार्यशाला में छात्र-छात्राओं को टिशु कल्चर, एंटीबायोटिक्स और डायग्नोस्टिक तकनीकों के बारे में जानकारी दी। ब्यूरो

Amar Ujala Page No. 7 dt.
16.12.2018

Workshop on Drug Awareness

नशा विरोधी जागरूकता दिवस

नशा स्वास्थ्य और समाज के लिए घातक : डा. दीपा

शिमला (ब्यूरो): नशे की बढ़ती प्रवृत्ति को रोकने और इसके दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करने के लिए संजौली कॉलेज में कार्यशाला आयोजित की गई। नशा विरोधी जागरूकता कमेटी द्वारा आयोजित कार्यशाला में दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल शिमला के मैडीकल सोशल वर्कर मीनाक्षी मेहता और क्लीनिकल साइकोलॉजिस्ट डा. दीपा राठौर प्रमुख वक्ता रहीं। विशेषज्ञों ने पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन और लघु फिल्मों के माध्यम से विस्तारपूर्वक छात्रों को समझाया कि नशा किस तरह से समाज के लिए कैंसर की तरह घातक सिद्ध हो रहा है। इस मौके पर कॉलेज प्रधानाचार्य डॉ सीबी मेहता ने कहा कि आज की चुनौती न केवल नशे में लिस हुए बच्चों को इस बुराई के चंगुल से बचाना है बल्कि जो अभी इस बुराई के शिकार नहीं हुए हैं उन्हें बचाना भी है, ताकि पहले हम खुद सुरक्षित रहें, उसके बाद दूसरों को भी जागरूक करें। डॉ मेहता ने कॉलेज में एंटी ड्रग्स अवेयरनेस क्लब बनाने की घोषणा करते हुए सभी छात्रों से इसमें भाग लेने का आह्वान किया। कमेटी के अध्यक्ष डॉ रविन्द्र चौहान ने कार्यशाला में उपस्थित विशेषज्ञों, शिक्षकों एवं सभी छात्र प्रतिभागियों का धन्यवाद किया।

शिमला सवेरा Sun, 16 December 2018
dainiksaveratimes.epapr.in/c/



कॉलेज छात्रों को लघु फिल्म दिखाकर बताए नशे के दुष्प्रभाव

नशा मुक्ति पर कार्यशाला का आयोजन

अमर उजाला ब्यूरो

नशा माफिया के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान

शिमला। राजधानी के उत्कृष्ट शिक्षा केंद्र संजौली कॉलेज में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कॉलेज की नशा विरोधी जागरूकता कमेटी ने युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति को रोकने के लिए लघु फिल्म दिखाकर नशे के दुष्प्रभाव बताए। कार्यशाला में सैकड़ों छात्र-छात्राओं और शिक्षकों ने भाग लिया। इसमें दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल शिमला से आई मेडिकल सोशल वर्कर मीनाक्षी मेहता और क्लीनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉ. दीपा राठौर ने मुख्य वक्ता के रूप में विचार रखे। पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताया कि किस कदर नशे में नशाकारी एक संघी



मानव शरीर प्रभावित होता है। नशा कैंसर जैसे रोग देता है। कार्यशाला में कॉलेज के प्राचार्य डॉ. सीबी मेहता ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि नशे में लिप्त एक भी व्यक्ति सारे परिवार और आसपास के समाज के लिए पतन का रास्ता प्रशस्त करता है। आज की चुनौती न केवल नशे में लिप्त हुए बच्चों को इस बुराई के चंगुल से बचाना है, बल्कि जो अभी इस बुराई के शिकार नहीं हुए हैं उन्हें बचाना भी है। डॉ. मेहता ने महाविद्यालय में एंटी ड्रग्स अवेयरनेस क्लब बनाने की घोषणा भी की। कमेटी के अध्यक्ष डॉ. रविन्द्र चौहान ने कार्यशाला में उपस्थित

Workshop on Cyber Crime



MR MUNISH KUMAR (INSPECTOR CYBER CRIME) INTERACTING WITH NSS VOLUNTEERS (25TH JULY 2018) IN AN WORKSHOP ON CYBER CRIME ORGANISED BY NSS UNIT OF GC SANJAULI

Wild Life Week

Himachal Dustak
page 6 ,30.09.2017

संजौली कॉलेज ने मनाया वाइल्ड लाइफ वीक

शिमला। राजकीय महाविद्यालय संजौली में कॉलेज के ईको क्लब द्वारा वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेशन के तहत एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें जंगली जीवन से संबंधित प्रदर्शनी रखी गई। इस कार्यक्रम में महाविद्यालय की प्राचार्या डॉ. दीक्षा मल्होत्रा ने खतौर मुख्यातिथि शिरकात की। उन्होंने विज्ञान के छात्रों को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होने का आग्रह किया तथा उन्हें आम जनता को भी पर्यावरण के बारे में सजग करने के लिए प्रेरित किया। प्रश्नोत्तरी में कुल पांच टीमों को खेलने का मौका दिया गया। इसमें पिंक रोहोडोडैन्ड्रीन टीम जिसमें विनय राणा तथा अंकित कुमार ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। दूसरे स्थान पर निधी और राजेश ने कब्जा किया। अनुभव की कोहली और पूजा ठाकुर को सांत्वना पुरस्कार दिया मिला। इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए मुख्यातिथि ने ईको क्लब के कार्यक्रम अधिकारी डॉ. अनिल ठाकुर और मौनक्षी शर्मा को बधाई दी।

Amar Ujala page No. 5
30.09.2017

वन्य जीवन प्रतियोगिता में विनय, अंकित रहे प्रथम

संजौली कॉलेज में मनाया वन्य प्राणी जीवन सप्ताह

अमर उजाला पृष्ठ 5

शिमला। राजकीय महाविद्यालय संजौली में ईको क्लब द्वारा वन्य प्राणी जीवन सप्ताह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में महाविद्यालय की प्राचार्या डॉ. दीक्षा मल्होत्रा ने खतौर मुख्यातिथि शिरकात की। उन्होंने विज्ञान के छात्रों को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होने का आग्रह किया। प्रश्नोत्तरी में कुल पांच टीमों को खेलने का मौका दिया गया। इसमें पिंक रोहोडोडैन्ड्रीन टीम जिसमें विनय राणा तथा अंकित कुमार ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। दूसरे स्थान पर निधी और राजेश ने कब्जा किया। अनुभव की कोहली और पूजा ठाकुर को सांत्वना पुरस्कार दिया मिला। इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए मुख्यातिथि ने ईको क्लब के कार्यक्रम अधिकारी डॉ. अनिल ठाकुर और मौनक्षी शर्मा को बधाई दी।

Punjab Kesri, Shimla Kesri 30.09.2017

शनिवार SATURDAY 30 सितम्बर 2017

ब्रीफ न्यूज़

विनय व अंकित का रहा दबदबा

शिमला, 29 सितम्बर (ब्यूरो) : राजकीय महाविद्यालय संजौली के ईको क्लब यूनिट ने वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेशन के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें जंगली जीवन से संबंधित प्रश्नोत्तरी रखी गई। इस प्रश्नोत्तरी में सो लैपर्ड, सिडर ट्री, पिंक रोहोडोडैन्ड्रीन और बनयन ट्री टीम ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में पिंक रोहोडोडैन्ड्रीन टीम के विनय राणा और अंकित कुमार पहले स्थान पर रहे। बनयन ट्री टीम से किरन शर्मा और पूजा शर्मा दूसरे व सो लैपर्ड टीम से निधि ठाकुर और राजेश कुमार तीसरे स्थान पर रहे, वहीं वैस्टर्न ट्रेगोपिन की टीम से अनुभव कोहली और प्रज्ञा ठाकुर को सांत्वना पुरस्कार दिया गया।

Daink Savera 30.09.2017

वाइल्ड लाइफ पर पूछे प्रश्न

शिमला (ब्यूरो) : राजकीय महाविद्यालय संजौली के ईको क्लब यूनिट ने वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेशन के तहत कार्यक्रम में जंगली जीवन से संबंधित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता करवाई जिसमें सो लैपर्ड, सिडर ट्री, पिंक रोहोडोडैन्ड्रीन और बनयन ट्री टीम ने भाग लिया। प्रतियोगिता में पिंक रोहोडोडैन्ड्रीन टीम के विनय राणा और अंकित कुमार पहले स्थान, बनयन ट्री टीम से किरन शर्मा और पूजा शर्मा दूसरे व सो लैपर्ड टीम से निधि ठाकुर और राजेश कुमार तीसरे स्थान पर रहे। वहीं वैस्टर्न ट्रेगोपिन की टीम से अनुभव कोहली और प्रज्ञा ठाकुर को सांत्वना पुरस्कार दिया गया। कार्यक्रम में महाविद्यालय की प्राचार्या डॉ. दीक्षा मल्होत्रा मुख्यातिथि के तौर पर उपस्थित रहीं।

Divya Himachal page
Mera Shimla 30.09.2017

संजौली में मनाया वाइल्ड लाइफ वीक

शिमला— राजकीय महाविद्यालय संजौली में कॉलेज के ईको क्लब यूनिट द्वारा वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेशन के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें जंगली जीवन से संबंधित प्रश्नोत्तरी करवाई गई। इस कार्यक्रम में महाविद्यालय की प्राचार्या डॉ. दीक्षा मल्होत्रा मुख्यातिथि के रूप में उपस्थित रहीं। प्रश्नोत्तरी में पांच टीमों को खेलने का मौका दिया गया। इसमें सो लैपर्ड, सिडर ट्री, पिंक रोहोडोडैन्ड्रीन तथा बनयन ने भाग लिया। इनका चयन स्लॉगिंग टेस्ट के द्वारा किया गया। पिंक रोहोडोडैन्ड्रीन टीम, जिसमें विनय राणा और अंकित कुमार, बी एस सी तृतीय सेमेस्टर ने प्रथम स्थान और बनयन ट्री (किरण शर्मा, पूजा शर्मा तृतीय सेमेस्टर ने दूसरा तथा सो लैपर्ड टीम निधि और राजेश कुमार तृतीय स्थान पर रहे।

Awareness Programme by National Commission for Women



अंकित प्रथम, किरण दूसरे स्थान पर रहीं

अमर उजाला ब्यूरो
शिमला।

राजधानी के सेंटर आफ एक्ससेलेंस कॉलेज में खैरवार को राष्ट्रीय महिला आयोग की ओर से विरोध जागरूकता कार्यक्रम करवाया गया। कॉलेज प्राचार्य डॉ. दीक्षा मल्होत्रा वतौर मुख्य अतिथि शरीक हुईं। छात्रों के लिए महिला अधिकारों पर प्रतियोगिता भी कराई गई। इसमें 126 छात्र-छात्राओं ने भाग लिया। अंकित शर्मा ने पहला दो हजार का पुरस्कार प्राप्त किया, जबकि किरण शर्मा ने 1500 का दूसरा और किरण बाला और विपुल चौधन तथा जयनवी ठाकुर ने तीसरा एक हजार का पुरस्कार प्राप्त। कर्मिक सुद और नूनन को भी पुरस्कार दिया गया।

गृहिणी और नौकरों करने वाली महिलाएं परेचू हिंसा, अफिस में तरह तरह के शोषण का शिकार होती हैं। मुख्य अतिथि डॉ. दीक्षा मल्होत्रा ने कहा कि यह सुर्गी की बात है कि महिला अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। इस दौरान डॉ. राम लाल शर्मा, डॉ. सरिता शारदा, डॉ. भारती शर्मा, डॉ. मीनकबी, डॉ. मीना शर्मा, डॉ. ज्ञान शर्मा, मीनाबी कोहली, डॉ. रमेश चंद, डॉ. सपन मौजूद रहे।

छात्रों को दिखाई लघु फिल्म छात्र छात्राओं को महिला अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए ज्ञान शर्मा द्वारा निर्देशित एक फिल्म को दिखाया गया। इसमें महिलाओं को उनके अधिकार बताए गए थे और किस तरह से महिलाएं अपने हक के लिए लड़ सकती हैं और अपने अधिकार के लिए कार्य कर सकती हैं।

Amar Ujala 01.12.2017 page no. 6

HP State Council for Science, Technology and Environment Govt. of HP organized a Popular Lecture on Climate Change and its impact on Himalayan Region

Danik Jagran

पर्यावरण परिवर्तन होगा भयावह

कनौली कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित लोग • जज्ञास 21.09.2017

ज्ञान संसाधना, शिमला : सेंटर ऑफ एक्ससेलेंस राजकीय महाविद्यालय कनौली में विज्ञान संकाय द्वारा बुधवार को आयोजित किया गया। इस सेमिनार का अध्यक्ष प्राचार्य डॉ. दीक्षा मल्होत्रा का अध्यक्ष प्रबन्धकर्ता डॉ. दीक्षा मल्होत्रा मुख्य अतिथि चंद्रभूषण, विशेष अतिथि

रशियन, विशिष्ट अतिथि शुभ बनेनी व प्रसंगी धामटा ने किया। महाविद्यालय सभागार में आयोजित इस सेमिनार में प्राचार्य-प्राचार्य डॉ. दीक्षा मल्होत्रा ने पर्यावरण के प्रति उनके अपने अनुभव को साझा किया। इसके बाद रशियन ने अपने

पर्यावरण के तकनीक व पर्यावरण परिवर्तन व लक्ष्य की व्याख्यान फाउंडेशन दी किया। मुख्य वक्ता चंद्र भूषण ने कहा कि पर्यावरण परिवर्तन निश्च के लिए नीकने कलौ पटना है और इसके दूसरों परीक्षण पक्का होने वाले है।

Amar Ujala

लापरवाही बरती तो खतरे में पड़ जाएगा हिमालय क्षेत्र : चंद्र भूषण

शिमला। राजधानी के सेंटर ऑफ एक्ससेलेंस में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि चंद्र भूषण ने कहा कि पर्यावरण परिवर्तन निश्च के लिए नीकने कलौ पटना है और इसके दूसरों परीक्षण पक्का होने वाले है।

अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए ज्ञान शर्मा द्वारा निर्देशित एक फिल्म को दिखाया गया। इसमें महिलाओं को उनके अधिकार बताए गए थे और किस तरह से महिलाएं अपने हक के लिए लड़ सकती हैं और अपने अधिकार के लिए कार्य कर सकती हैं।

Amar Ujala 01.12.2017

Dainik Bhaskar 21.09.2017

संजौली कॉलेज में सेमिनार, पर्यावरण परिवर्तन पर जताई चिंता

शिमला | संजौली कॉलेज में बुधवार को राष्ट्रीय विज्ञान तकनीक व पर्यावरण परिषद की ओर से सेमिनार करवाया। इस अवसर पर राष्ट्रीय विज्ञान तकनीक एवं सूचना विभाग दिल्ली के उप निदेशक चंद्रभूषण ने कहा कि पर्यावरण परिवर्तन विश्व के लिए चौंकाने वाली घटना है। इसके जो दूरगामी परिणाम होंगे वह बहुत भयानक होने वाले हैं। इसके लिए चीन और अमेरिका जैसे देश जिम्मेवार हैं, जो सबसे अधिक ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। उनका कहना है कि विश्व की 50 फीसदी गैस उत्सर्जन ये दोनों देश करते हैं, जो पर्यावरण के लिए घातक है। यदि समय रहते भी ये देश नहीं संभले तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने के लिए पूरे विश्व को तैयार रहना होगा। इस अवसर पर कॉलेज की प्रिंसिपल प्रो. दीक्षा मल्होत्रा भी मौजूद थी।

Divya Himachal 21.09.2017

संजौली कॉलेज में उद्बोधन श्रृंखला का आयोजन

शिमला— उत्कृष्ट शिक्षा केन्द्र राजकीय महाविद्यालय, संजौली, शिमला में विज्ञान संकाय द्वारा उद्बोधन श्रृंखला का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ महाविद्यालय प्राचार्य डॉ. दीक्षा मल्होत्रा और मुख्यातिथि चंद्र भूषण विशेषातिथि शशीधर और विशिष्ट अतिथि शुभा बनेनी व भारती भांगड़ा द्वारा किया गया। महाविद्यालय सभागार में आयोजित इस श्रृंखला में प्राचार्य डॉ. दीक्षा मल्होत्रा ने अपने उद्बोधन में पर्यावरण संबंधी अनुभव साझा किए। तत्पश्चात् शशीधर जो हिमाचल प्रदेश विज्ञान तकनीक और पर्यावरण परिषद के अधिकारी हैं ने अपने संस्थान व लक्ष्य


6 हिमाचल दस्तक


छात्रों ने बदलते पर्यावरण के कारणों को जाना

शिमला। संजौली महाविद्यालय में विज्ञान विभाग की ओर से व्याख्यान श्रृंखला का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश विज्ञान विभाग तकनीक और पर्यावरण परिषद व राष्ट्रीय विज्ञान तकनीकी एवं सूचना विभाग के संयुक्त तत्वावधान में हुआ। इसमें हिमालय क्षेत्र में हो रहे जलवायु परिवर्तन पर विशेष व्याख्यान दिया गया। इस कार्यक्रम में संजौली कॉलेज के करीब सात सौ छात्रों ने बदलते पर्यावरण के कारणों के बारे में जाना।

Workshop on Proficiency in English Grammar

अंग्रेजी भाषा भाषा विश्व को जोड़ती है
 जिसका ध्येय है, विश्वमानवता को जोड़ना।
 संजौली ग्रहणियालय संजौली में एक प्रहीने की अर्धशाला में
 डॉ. मिनमोरी कैपॉल ने कहा कि "भाषा विश्व को जोड़ती है,
 जिसका ध्येय है विश्वमानवता को जोड़ना। अपने बसके
 में उन्होंने कहा कि भाषा नित्य प्रयोग से परिष्कारित होती
 है। जन-जन वास करती है। जीवन में व्यक्तित्व का विकास
 भाषा से होता है अर्थात् ही वह मूल मूल है। जिससे भाषा
 अक्षर होता है भाषा विचार का वह माध्यम है।
 जिससे सामाजिकता एक होती है। अतः जीवन में भाषा
 महि सृष्टि होती है तो वह व्यक्त है होती है। संसार में भाषा
 वह माध्यम है जिससे जन-जन एक हो जाता है। इस
 दृष्टि से अंग्रेजी भाषा सर्वोपरि उदात्त है, क्योंकि यह
 भाषा एक-दूसरे का भाव जमाती है। एक-दूसरे की
 मानवता का आधार समझ भाषा ही है।
 अतः भाषा का वह मूल मूल है जिससे
 हमारे अन्तर्निहित गुण लक्ष्य में होता के समाने
 आता है। निम्नो के माध्यम से निम्न भाषा ही
 भाषा विविधता का सशक्त माध्यम होता है।
 डॉ. पॉल ने कहा कि इससे ही वह आधार
 जिससे भाषा निरखती है। विश्वभरि जब कभी
 में अर्थात् लोगों को सभी भाषा सृष्टि लक्ष्य में
 समझ आती। अतः भाषा एक-दूसरे को आड़ेगा, 2024
 ने कहा कि यह कार्यशाला शिक्षार्थियों के लिए
 लोगों को सृष्टि में अर्थात् न उदात्त उदात्त
 अक्षर है।




 Principal
 Govt. College Sanjauli
 Shimla-6
 GOE, Govt. College
 Sanjauli, Shimla-6